

## Research Eligibility Test 2018

## द्वितीय प्रश्न-पत्र-पुस्तिका / QUESTION BOOKLET-PAPER-II

## द्वितीय प्रश्न-पत्र- लेखाशास्त्र एवं व्यावसाय सांख्यिकी / Paper-II – A.B.S.T.

समय / Time : 60 मिनट / 60 Minutes

पूर्णांक / Maximum Marks : 100

अनुक्रमांक / Roll No. :

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या : 12

No. of Pages in Booklet : 12

पुस्तिका में बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या : 50

No. of Multiple Choice Objective Questions in Booklet : 50

निर्देश	INSTRUCTIONS
1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।	1. Answer all the questions.
2. प्रत्येक प्रश्न दो अंक का है।	2. Every question is of two marks.
3. गलत उत्तरों के लिए अंक काटे नहीं जाएंगे।	3. There are no negative marks for incorrect answers.
4. परीक्षा प्रारंभ होने पर प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जाएगी। पहले पांच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जांच के लिए दिए जाएंगे जिसकी जांच आपको अवश्य करनी है – कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह से जाँच ले कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गए हों या क्रम में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटा कर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें। इसके लिए आपको पांच मिनट दिये जाएंगे, इसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जाएगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा।	4. At the commencement of examination, the Question Booklet will be given to you. In the first five minutes, you are requested to open the Booklet and compulsorily examine it as below: Tally the number of pages and number of questions in the Booklet with the information printed on the cover page. Faulty Booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct Booklet from the invigilator within the period of five minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given.
5. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर पृथक से दी गयी ओ. एम. आर. में लिखें।	5. Give one answer of each question in a separately provided OMR answer sheet.
6. कच्चा कार्य इस पुस्तिका के छपे हुए पृष्ठों के पीछे कर सकते हैं।	6. Rough work is to be done on the back of printed papers.
7. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं जिन्हें अंग्रेजी में क्रमशः <b>A, B, C, D</b> , लिखा गया है और हिन्दी में क्रमशः <b>अ, ब, स, द</b> लिखा गया है। अभ्यर्थी को प्रश्न का सही उत्तर, उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्नांक के सामने दिये गये बॉक्स में लिखना है। <b>केवल नीले/काले बाल प्वाइण्ट पेन का ही इस्तेमाल करें।</b>	7. There are four optional answer of each question which have written <b>A, B, C, D</b> in English and <b>अ, ब, स, द</b> in Hindi respectively. Candidate is required to darken the correct options of the answers of each question in the box given against each question No. on the answer sheet. <b>Use only blue/black ball point pen.</b>
8. आप उत्तरपुस्तिका पर नियत स्थान के अलावा अपना रोल नंबर, फोन नंबर या कोई भी ऐसा चिन्ह, जिससे आपकी पहचान हो सके, अंकित करते हैं अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं। नकल सामग्री लाना, उपयोग करना, अन्य परीक्षार्थी से परीक्षा के दौरान बात करना वर्जित है। मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग वर्जित है। यदि किसी परीक्षार्थी के पास कोई भी वर्जित सामग्री अथवा कोई शिकायत मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	8. If you write your Roll No. or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclosed your identity or use abusive language, you will render yourself liable to disqualification. Carrying or use of copying material, talking with another candidate during examination is prohibited. Mobile phone or any electronic equipment is prohibited in the examination hall. If any of the prohibited material or any complaint is received against any candidate, necessary action as per rules will be taken against such candidate.
9. यदि कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास कोई अनाधिकृत/वर्जित सामग्री पाई जाती है तो उसके विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के नियम 3 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली समस्त परीक्षाओं से वर्जित भी किया जा सकता है।	9. In case any of the candidate is found to copying or any unauthorised/prohibited material is found from his/her, an <b>FIR</b> shall be lodged in the Police against that candidate and action will be taken under Rule 3 of the Prevention of Unfair means Act, 1992. Such applicant can be prohibited from appearing in all examination in future.
10. किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा मुद्रण त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी रूपान्तर को माना जाएगा।	10. The English version will be treated as standard in case of any ambiguity or printing mistake.
	परीक्षार्थी के हस्ताक्षर / Signature of the Candidate
प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी का सत्यापन आवेदन पत्र में लगे उसके चित्र एवं उसके हस्ताक्षरों के मिलान के साथ कर लिया गया और यह परीक्षार्थी वही है जिसने आवेदन किया है।	It is certify that the verification of the candidate has been done as per the photographs pasted and also signatures given on the application form. It is stated that he/she is the same candidate who has applied.
	परीवीक्षक के हस्ताक्षर / Signature of the Invigilator

1. As per which convention of Accounting, the practice of “window dressing and Creating secret reserves” is not permitted in accounting -  
 (A) Convention of disclosure (B) Convention of materiality  
 (C) Convention of consistency (D) Convention of conservation  
 लेखांकन की किस परम्परा के अनुसार “खिड़की सजावट एवं गुप्त संचय” बनाने की नीति मान्य नहीं हैं -  
 (अ) प्रकरीकरण की परम्परा (ब) महत्ता की परम्परा  
 (स) एकरूपता की परम्परा (द) रूढ़िवादिता की परम्परा
2. On the basis of which accounting concept or convention closing stock is credited to trading account -  
 (A) Going concern concept (B) Cost concept  
 (C) Convention of consistency (D) Matching concept  
 किस लेखांकन अवधारणा अथवा परम्परा के आधार पर अन्तिम स्टॉक को व्यापार खाते में क्रेडिट किया जाता है -  
 (अ) चालू व्यवसाय अवधारणा (ब) लागत अवधारणा  
 (स) संगतता की परम्परा (द) मिलान अवधारणा
3. Owner’s claim in assets of business is -  
 (A) Primary (B) Causal  
 (C) Maximum (D) Residual and final  
 व्यवसाय की सम्पत्तियों में स्वामी का दावा होता है -  
 (अ) प्राथमिक (ब) आकस्मिक  
 (स) अधिकतम (द) बचा हुआ एवं अन्तिम
4. Plant and machinery which stood in books at ₹ 7500 includes a machine at a book value of ₹ 1700. This being obsolete and was sold off at ₹ 450 and replaced by a new machine which cost ₹ 2400. Then capital expenditure is -  
 (A) 1250 (B) 2400  
 (C) 450 (D) 1950  
 पुस्तकों में संयंत्र एवं मशीनरी ₹ 7500 में एक ₹ 1700 पुस्तक मूल्य की मशीनरी शामिल है। यह अप्रचलित हो गई और ₹ 450 में बेच दी गई तथा ₹ 2400 की गई मशीन से प्रतिस्थापित की गई। तब पूंजीगत खर्च है -  
 (अ) 1250 (ब) 2400  
 (स) 450 (द) 1950
5. Goods given as samples should be credited to -  
 (A) Advertisement Account (B) Sales Account  
 (C) Purchases Account (D) Trading Account  
 नमूने के रूप में दिये गये माल को जमा किया जाना चाहिए -  
 (अ) विज्ञापन खाते में (ब) विक्रय खाते में  
 (स) क्रय खाते में (द) व्यापार खाते में

6. Upon dissolution a liability taken over by a partner is to be credited to -

- (A) Profit & loss A/c (B) Partner's capital A/c  
(C) Realization A/c (D) Deficiency A/c

विघटन पर एक साझेदार द्वारा लिए गये दायित्व को जमा किया जाता है -

- (अ) लाभ-हानि खाते में (ब) साझेदार के पूंजी खाते में  
(स) वसूली खाते में (द) न्यूनता खाते में

7. A and B are partners in a firm sharing in 5:3. They admit C with  $\frac{1}{4}$  share in profit which he acquire  $\frac{3}{4}$  from A and  $\frac{1}{4}$  B. He Pays ₹ 4000 for his share of goodwill. A and B will be created by -

- (A) 2500 and 1500 respectively (B) 3000 and 1000 respectively  
(C) 2000 each (D) 1000 and 3000 respectively

अ एवं ब एक फर्म में 5:3 के अनुपात में साझेदार हैं। वे स को लाभ में हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं जो कि वह अ से  $\frac{3}{4}$  एवं ब से  $\frac{1}{4}$  लेता है। वह अपने हिस्से की ख्याति के लिए ₹ 4000 देता है। अ एवं ब को जमा किया जायेगा -

- (अ) क्रमशः 2500 एवं 1500 से (ब) क्रमशः 3000 एवं 1000 से  
(स) प्रत्येक को 2000 से (द) क्रमशः 1000 एवं 3000 से

8. Amar and Akbar are equal partners, on the date of dissolution of firm their capitals were 60,000 and 80,000 respectively. After sale of assets and payment of liabilities cash balance was 1,12,000. Profit on loss on realisation will be -

- (A) Profit 28,000 (B) Profit 40,000  
(C) Profit 60,000 (D) Loss 28,000

अमर एवं अकबर बराबर के साझेदार हैं। फर्म के विघटन की तिथि को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 एवं 80,000 ₹ थी। सम्पत्तियों को बेचने तथा दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात् 1,12,000 ₹ का नकद शेष था। वसूली पर होने वाली लाभ या हानि की राशि होगी -

- (अ) लाभ 28,000 (ब) लाभ 40,000  
(स) लाभ 60,000 (द) हानि 28,000

9. It is share of ₹ 10, on which ₹ 6 has been paid, is forfeited, it can be re-issued at a minimum price of:

- (A) ₹ 6 per share (B) ₹ 4 per share  
(C) ₹ 10 per share (D) None of these

यदि एक 10 ₹ के अंश, जिस पर 6 ₹ चुकता है, को जब्त किया जाता है, तो इसे न्यूनतम किस मूल्य पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है -

- (अ) ₹ 6 प्रति अंश (ब) ₹ 4 प्रति अंश  
(स) ₹ 10 प्रति अंश (द) इनमें से कोई नहीं

10. Loss suffered from the date of acquisition of business to the date of incorporation should be debited to -

- (A) Profit & Loss a/c (B) Goodwill a/c  
(C) Capital reserve a/c (D) Preliminary expenses a/c

व्यवसाय क्रम की तिथि से समामेलन की तिथि तक की हानि को डेबिट किया जाना चाहिए –

- (अ) लाभ – हानि खाते को (ब) ख्याति खाते को  
(स) पूंजी संचय खाते को (द) प्रारम्भिक खर्च खाते को

11. The salary of 4 clerks for a period of 6 months before the relevant date of liquidation was in arrears. If the salary of each clerk is ₹ 1200 p.m. the amount to be included in preferential creditors will be -

- (A) 28,800 (B) 19,200  
(C) 4,000 (D) 7,200

समापन की सम्बन्धित तिथि से पूर्व का चार क्लर्क का छः माह का वेतन बकाया था। यदि प्रत्येक क्लर्क का वेतन प्रतिमाह 1200₹ है तो पूर्वाधिकार लेनदारों में सम्मिलित राशि होगी –

- (अ) 28,800 (ब) 19,200  
(स) 4,000 (द) 7,200

12. Mr. C's trail balance contains the following information: Bad debts 4,000, provision for doubtful debts 5,000; Sundry debtors 25,000. It is desired to create a provision for bad debts at 10% on sundry debtors. Sundry debtors will appear in the balance sheet at a net figure of -

- (A) 22,500 (B) 21,000  
(C) 18,000 (D) 15,500

मि.सी. के तलपट में निम्न सूचनाएं हैं: डूबत ऋण 4,000, संदिग्ध ऋण प्रावधान 5,000, विविध देनदार 25,000, विविध देनदारों पर 10% डूबत ऋण प्रावधान बनाना है। विविध देनदारों की शुद्ध राशि चिट्ठे में दर्शाई जायेगी –

- (अ) 22,500 (ब) 21,000  
(स) 18,000 (द) 15,500

13. Accumulated profits include-

- (A) Provision for doubtful debts (B) Insurance Fund  
(C) Employee's provident fund (D) None of these

संचयी लाभों में सम्मिलित हैं –

- (अ) संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन (ब) बीमा कोष  
(स) कर्मचारी भविष्य निधि कोष (द) इनमें से कोई नहीं

14. Cost of control account is credited with -  
 (A) Revenue profit's (B) Capital profit's  
 (C) Revenue losses (D) None of these  
 नियन्त्रण की लागत खाते को जमा किया जाता है -  
 (अ) आयगत लाभों से (ब) पूंजीगत लाभों से  
 (स) आयगत हानियों से (द) इनमें से कोई नहीं
15. XYZ Ltd. increases its share capital by issuing 3 new equity shares of ₹ 10 each for ₹ 25 for every 5 shares held. Market price of existing share is ₹ 29 (cum right). Value of right would be -  
 (A) ₹ 2.50 (B) ₹ 3.50  
 (C) ₹ 1.50 (D) ₹ 4.50  
 XYZ लि. अपनी अंश पूंजी में वृद्धि करने के लिए 5 समता अंशों के बदले उनमें अंश ( ₹ 10 वाले) ₹ 25 प्रति अंश की दर से निर्गमित करती है। विद्यमान समता अंशों का बाजार मूल्य ₹ 29 (अधिकार सहित) प्रति अंश है, तो अधिकार का मूल्य होगा -  
 (अ) ₹ 2.50 (ब) ₹ 3.50  
 (स) ₹ 1.50 (द) ₹ 4.50
16. Market capitalisation rate is 18% and dividend per share is ₹ 2.40 for a share of ₹ 100, value per share would be -  
 (A) 15 (B) 15.33  
 (C) 13.33 (D) 16.33  
 बाजार पूंजीकरण दर 18% है तथा 100₹ के अंकित मूल्य के अंश पर लाभांश ₹ 2.40 है, अंश का मूल्य होगा -  
 (अ) 15 (ब) 15.33  
 (स) 13.33 (द) 16.33
17. When Amalgamation is in nature of merger, the accounting method to be followed is -  
 (A) Equity method (B) Purchase method  
 (C) Pooling of interest method (D) Consolidated method  
 जब एकीकरण विलय के स्वभाव का है, तो अपनामी जाने वाली लेखा विधि होती है -  
 (अ) समता विधि (ब) क्रय विधि  
 (स) हितों के एकत्रीकरण की विधि (द) समेकित विधि
18. Debenture holders having a floating charge have priority in payment over -  
 (A) Preferential creditors (B) Secured creditors  
 (C) Unsecured creditors (D) On all of these  
 चल प्रकार वाले ऋणपत्रधारियों को भुगतान में प्राथमिकता होती है -  
 (अ) पूर्वाधिकार लेनदारों पर (ब) सुरक्षित लेनदारों पर  
 (स) असुरक्षित लेनदारों पर (द) इन सभी पर

19. Profit mode of a firm will result in equal increase of -  
 (A) Gross current assets (B) Net Current assets  
 (C) Net working capital (D) Net worth of the firm  
 फर्म के लाभ से समान वृद्धि होगी -  
 (अ) सकल लाभ सम्पत्तियों में (ब) शुद्ध चालू सम्पत्तियों में  
 (स) शुद्ध चालू पूंजी में (द) फर्म की शुद्ध सम्पदा में
20. Which of the following of ratio is known as primary ratio?  
 (A)  $\frac{\text{Net operating profits}}{\text{sales}} \times 100$  (B)  $\frac{\text{Sales}}{\text{Fixed assets}} \times 100$   
 (C)  $\frac{\text{Net Sales}}{\text{Working capital}} \times 100$  (D)  $\frac{\text{Net operating profits}}{\text{Net Capital employed}} \times 100$   
 निम्न में से कौन सा अनुपात प्राथमिक अनुपात कहलाता है -  
 (अ)  $\frac{\text{शुद्ध परिचालक लाभ}}{\text{विक्रय}} \times 100$  (ब)  $\frac{\text{विक्रय}}{\text{स्थायी सम्पत्तियां}} \times 100$   
 (स)  $\frac{\text{शुद्ध विक्रय}}{\text{कार्यशील पूंजी}} \times 100$  (द)  $\frac{\text{शुद्ध परिचालक लाभ}}{\text{शुद्ध पूंजी विनियोग}} \times 100$
21. Net profit after depreciation of ₹ 10,000 and transfer to reserves ₹ 20,000 is ₹ 1,20,000.  
 The addition to stock during the period was ₹ 20,000. Cash from operation is -  
 (A) 1,30,000 (B) 1,70,000  
 (C) 1,50,000 (D) 1,00,000  
 मूल्य ह्रास ₹ 10,000 तथा संचय में हस्तान्तरण ₹ 20,000 के बाद शुद्ध लाभ ₹ 1,20,000 हैं। अवधि के दौरान स्टॉक में ₹ 20,000 की वृद्धि की गई। परिचालन से नकद है -  
 (अ) 1,30,000 (ब) 1,70,000  
 (स) 1,50,000 (द) 1,00,000
22. Which costing method is currently very widely used for internal reporting?  
 (A) Absorption costing (B) Full costing  
 (C) Variable costing (D) Standard costing  
 आन्तरिक प्रतिवेदन के लिए वर्तमान में किस लागत विधि को ज्यादा उपयोग में लिया जाता है -  
 (अ) अवशोषण लागत विधि (ब) पूर्ण लागत विधि  
 (स) परिवर्तन शील लागत विधि (द) प्रमाप लागत विधि
23. If sales and fixed costs remain unchanged, contribution will remain unchanged only when -  
 (A) Margin of safety increases (B) Fixed cost increases  
 (C) Total variable cost remain constant (D) None of the above  
 यदि विक्रय एवं स्थायी लागत अपरिवर्तित रहती है तब अंशदान अपरिवर्तित रहेगा केवल जब -  
 (अ) सुरक्षा सीमा बढ़ती है (ब) स्थायी लागते बढ़ती है  
 (स) कुल परिवर्तनशील लागते स्थिर रहती है (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

24. Standard costing will produce the same results as conventional costing when standard cost variances are allocated to -
- (A) Cost of goods sold (B) Cost of goods sold and inventories  
(C) A balance sheet account (D) A revenue or expense account
- प्रमाण लागत लेखांकन वही परिणाम देगा जो परम्परागत लागत लेखांकन में होते हैं जब प्रमाण लागत विचरणों को बांटा जाता है -
- (अ) बेचे गये माल की लागत में (ब) बेचे गये माल की लागत एवं रहतिये में  
(स) चिट्ठा खाते में (द) आय अथवा व्यय खाते में
25. Zero base Budgeting was first propounded by -
- (A) Prof. Nile (B) Peter 'A' Pyhrr  
(C) Karter (D) Gordon and Shillinglaw
- शून्य आधार बजट के द्वारा प्रथम अवतरित किया गया -
- (अ) प्रो. नाइल (ब) पीटर 'अ' फाहर  
(स) कार्टर (द) गोरडन एवं शिलिंगलॉ
26. The fixed and variable cost classification has a special significance in the preparation of -
- (A) Capital Budget (B) Cash Budget  
(C) Master Budget (D) Flexible Budget
- स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत वर्गीकरण का विशेष महत्व है ..... को बनाने में -
- (अ) पूंजी बजट (ब) नकद बजट  
(स) मास्टर बजट (द) लोचशील बजट
27. A company has PVR of 40%. By what percentage sales be increased to offset 20% reduction in selling price -
- (A) 80% (B) 100%  
(C) 200% (D) 400%
- एक कम्पनी का लाभ-बिक्री अनुपात 40% है। विक्रय मूल्य में 20% कमी को ऑफसेट करने के लिए विक्रय में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी -
- (अ) 80% (ब) 100%  
(स) 200% (द) 400%
28. Managers who are concerned not only with cost management but also with revenue generation are in a responsibility level called -
- (A) Cost centre (B) Budget centre  
(C) Investment (D) Profit centre
- प्रबन्धक जो केवल लागत प्रबन्ध से ही नहीं परन्तु आय उद्गम से भी सम्बन्धित होते हैं, उनका उत्तरदायित्व स्तर कहलाता है -
- (अ) लागत केन्द्र (ब) बजट केन्द्र  
(स) विनियोग केन्द्र (द) लाभ केन्द्र

29. The return on Investment may be improved by -  
 (A) increasing sales (B) reducing expenses  
 (C) increasing amount of capital utilised (D) all of the above  
 विनियोग पर प्रत्याय को सुधारा जा सकता है -  
 (अ) विक्रय वृद्धि से (ब) खर्च कम करके  
 (स) उपयोग की गई पूंजी राशि में वृद्धि से (द) उपर्युक्त सभी से
30. Which of the following will result in flow of funds?  
 (A) Purchase of furniture on credit (B) Writing off goodwill  
 (C) Depreciation of assets (D) Appreciation in Building  
 निम्न में से किसके द्वारा कोष का प्रवाह होगा?  
 (अ) फर्नीचर का उधार क्रय (ब) ख्याति का अपलेखन  
 (स) सम्पत्तियों का मूल्य हास (द) भवन में मूल्य वृद्धि
31. Under section 52 of companies Act 2013 for which purpose securities premium amount cannot be used -  
 (A) For redemption of preference shares  
 (B) For issue of fully paid up bonus shares  
 (C) For Buy Back of Shares  
 (D) For premium payable on redemption of shares  
 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार किस उद्देश्य के लिए प्रतिभूति प्रीमियम की राशि उपयोग में नहीं ली जा सकती है -  
 (अ) पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए (ब) पूर्णदत्त बोनस अंश जारी करने के लिए  
 (स) अंशों का पुनः क्रम करने के लिए (द) अंशों के शोधन पर प्रीमियम भुगतान के लिए
32. A critical assumption of the net operating income (NOI) approach to valuation is -  
 (A) That debt and equity levels remain unchanged  
 (B) That dividend increase at constant rate  
 (C) That  $k_0$  remains constant regardless of changes in leverage  
 (D) That interest expenses and taxes are included in the calculation  
 मूल्यांकन की शुद्ध परिचालन आय (NOI) परिकल्पना की मूल मान्यता है कि -  
 (अ) ऋण एवं समता स्तर अपरिवर्तित रहते हैं  
 (ब) लाभांश स्थिर दर से बढ़ता है  
 (स) उतोलक में परिवर्तन के बाद भी  $k_0$  स्थिर रहती है  
 (द) गणना में ब्याज खर्च एवं कर सम्मिलित हैं
33. When fixed costs is nil, size of degree of operating leverage will be?  
 (A) More than one (B) Negative  
 (C) Zero (D) one  
 जब स्थायी लागत शून्य है, परिचालन लीवरेज की डिग्री होगी -  
 (अ) एक से अधिक (ब) नकारात्मक  
 (स) शून्य (द) एक



34. Mistress Ltd. has taken a loan of ₹ 10 lakhs at an Interest rate of 15% p.a. Its tax rate applicable to the company is 40%, the cost of term loan is -
- (A) 5% (B) 7.5%  
(C) 9.9% (D) 9%
- मिस्ट्रेस लि. ने 10 लाख का ऋण 15% वार्षिक ब्याज दर पर लिया। यदि कम्पनी के लिए 40% कर की दर लागू होती है, तब ऋण की लागत है -
- (अ) 5% (ब) 7.5%  
(स) 9.9% (द) 9%
35. Internal rate of return represent the situation -
- (A) When NPV is zero  
(B) When NPV is negative  
(C) When NPV is positive  
(D) When PV is more than initial investment
- आन्तरिक प्रत्याय दर उस स्थिति को दर्शाती है -
- (अ) जब शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य हो  
(ब) जब शुद्ध वर्तमान मूल्य नकारात्मक हो  
(स) जब शुद्ध वर्तमान मूल्य धनात्मक हो  
(द) जब वर्तमान मूल्य प्रारम्भिक विनियोग से अधिक हो
36. The Annual sales of a firm is ₹ 3,00,000 with G.P. Ratio of 33.33%. The company keeps stock equal to 3 months production. The average investment in stock would be -
- (A) 80000 (B) 70000  
(C) 60000 (D) 50000
- एक फर्म की वार्षिक बिक्री ₹ 3,00,000 तथा सकल लाभ अनुपात 33.33% है। यदि कम्पनी 3 माह के उत्पादन के बराबर स्टॉक रखती है तब स्टॉक में औसत विनियोग होगा -
- (अ) 80,000 (ब) 70,000  
(स) 60,000 (द) 50,000
37. The most unstable measure of central tendency is -
- (A) Mean (B) Median  
(C) Mode (D) None of these
- केन्द्रीय प्रवृत्ति का प्रमुख अस्थिर माप है -
- (अ) माध्य (ब) माध्यका  
(स) बहुलक (द) इनमें से कोई नहीं
38. The coefficient of correlation -
- (A) has no limit (B) is less than 1  
(C) is more than - 1 (D) none of these
- सहसंबन्ध गुणांक -
- (अ) कोई सीमा नहीं होती है (ब) एक से कम होता है  
(स) (-) एक से अधिक होता है (द) इनमें से कोई नहीं

39. The standard normal distribution -

- (A) has a mean equal to 1 (B) has a mean equal to zero  
(C) has a mean less than zero (D) has a mean equal to 5

प्रमाण सामान्य बंटन में -

- (अ) माध्य एक के बराबर होता है (ब) माध्य शून्य के बराबर होता है  
(स) माध्य शून्य से कम होता है (द) माध्य पांच के बराबर होता है

40. Primary data is preferred over secondary data where -

- (A) Accuracy is important (B) Short time is available  
(C) Insufficient finance is available (D) Much accuracy is not required

द्वितीयक समंको की तुलना में प्राथमिक समंको का प्रयोग किया जाता है जब -

- (अ) शुद्धता महत्वपूर्ण हो (ब) समय कम उपलब्ध हो  
(स) अपर्याप्त वित्त उपलब्ध हो (द) अधिक शुद्धता की आवश्यकता न हो

41. In equation  $y = a + bx$ , value of  $b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$  when -

- (A)  $\sum x = 0$  (B)  $\sum y = 0$   
(C)  $\sum y = 1$  (D)  $\sum x = 1$

समीकरण  $y = a + bx$  में  $b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$  होता है जब -

- (अ)  $\sum x = 0$  (ब)  $\sum y = 0$   
(स)  $\sum y = 1$  (द)  $\sum x = 1$

42. In linear regression equation  $y = a + bx$ , the slope of line is -

- (A) b (B) a  
(C) y (D) x

रेखीय प्रतीपगमन समीकरण  $y = a + bx$  में रेखा का ढलान है -

- (अ) b (ब) a  
(स) y (द) x

43. What will be price of share if payout ratio is 80% as per Walter model [assume EPS = ₹ 10, cost of equity 10% and return on investment = 12%] -

- (A) 96 (B) 104  
(C) 100 (D) 124

वाल्टर मॉडल के अनुसार अंश का मूल्य क्या होगा यदि चुकता अनुपात 80% है : (मानिये EPS = 10 ₹, समता की लागत 10% तथा विनियोग पर प्रत्यक्ष 12%) -

- (अ) 96 (ब) 104  
(स) 100 (द) 124

44. An increase in variable costs -  
 (A) reduces the contribution (B) increase P/V ratio  
 (C) increases the margin of safety (D) none of these  
 परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि -  
 (अ) अंशदान को घटाती है (ब) पी.वी. अनुपात को बढ़ाती है  
 (स) सुरक्षा सीमा को बढ़ाती है (द) इनमें से कोई नहीं
45. Dividend received from pre-acquisition profits of subsidiary company should be credited by holding company in its books to -  
 (A) General reserve (B) Capital reserve  
 (C) P&L a/c (D) Goodwill a/c  
 सहायक कम्पनी के अधिग्रहण से पूर्व के लाभ में से प्राप्त लाभांश को सूत्रधारी कम्पनी की पुस्तकों में जमा किया जाना चाहिए -  
 (अ) सामान्य संचय में (ब) पूंजीगत संचय में  
 (स) लाभ - हानि खाते में (द) ख्याति खाते में
46. The share capital to the extent already held by the purchasing company is closed by the vender company by crediting it to -  
 (A) Investments a/c (B) Purchasing company's a/c  
 (C) Share capital a/c (D) Realisation a/c  
 क्रेता कम्पनी द्वारा पहले से अधिग्रहित अंश पूंजी को विक्रेता कम्पनी द्वारा में जमा कर बन्द किया जाता है -  
 (अ) विनियोग खाते में (ब) क्रेता कम्पनी खाते में  
 (स) अंश पूंजी खाते में (द) वसूली खाते में
47. On forfeiture of shares on default in payment of allotment and call money, share capital account should be debited with -  
 (A) Face value of shares (B) Paid up amount on shares  
 (C) Called up amount on shares (D) None of these  
 आबंटन एवं मांग राशि के चुक करने पर, अंशों को जब्त करने पर अंश पूंजी खाते को नाम करना चाहिए -  
 (अ) अंशों के अंकित मूल्य से (ब) अंशों के चुकता मूल्य से  
 (स) अंशों पर मांगी गई राशि से (द) इनमें से कोई नहीं
48. Higher the ratio, the more favourable it is. This does not apply to -  
 (A) Operating ratio (B) Operating profit ratio  
 (C) Stock turnover ratio (D) Return on Investment  
 अधिक अनुपात, ज्यादा अनुकूल यह है। यह लागू नहीं होता है -  
 (अ) परिचालन अनुपात पर (ब) परिचालन लाभ अनुपात पर  
 (स) स्टॉक टर्नओवर अनुपात पर (द) विनियोग के प्रत्यक्ष पर

49. In Indirect method to determine cash flow from operating activities adjustments are usually made in -

- (A) Gross profit (B) Net profit  
(C) Sales (D) Cost of goods sold

परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह, अप्रत्यक्ष विधि में निर्धारित करने के लिए, प्रायः समायोजन किए जाते हैं -

- (अ) सकल लाभ में (ब) शुद्ध लाभ में  
(स) विक्रय में (द) बेचे गये माल की लागत में

50. Revenue is generally recognised at the point of sale. Which principle is applied here -

- (A) Consistency (B) Matching principle  
(C) Revenue recognition (D) Cost principle

आय प्रायः विक्रय के बिन्दु पर मानी जाती है। इसमें कौन सा सिद्धान्त लागू होता है?

- (अ) संगतता/एकरूपता (ब) मिलान सिद्धान्त  
(स) आय मान्यता (द) लागत सिद्धान्त

